HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off & Works: Near Industrial Development Colony, Hisar-125005 (HRY) Phone: 01662-220067,220367,220738 Fax 01662-220265

Email :info@hisarmetal.com, Web www.hisarmetal.com

CIN No: L74899HR1990PLC030937

May 30, 2023

Corporate Relationship Department Bombay Stock Exchange Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai - 400 001

Scrip Code: 590018

(Category: Permitted for Trade)

Corporate Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C-1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra East
Mumbai – 400051

Scrip Code: HISARMETAL

Sub: Newspaper Publication for Transfer of Equity Shares of the Company to the Demat Account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

Dear Sir / Madam

In terms of provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016; as amended from time to time ("the Rules"), the Company is required to transfer all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for period of seven consecutive years to the Demat account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority in the manner as prescribed under the Rules.

We hereby enclose copies of the Notice to Shareholders published in "The Financial Express" (English-Newspaper) and "Jansatta" (Hindi-Newspaper) on 30/05/2023.

This is for your kind information and records.

Thanking You,

Yours faithfully, For **Hisar Metal Industries Limited**

Vishesh Digitally signed by Vishesh Kumar Chugh Date: 2023.05.30 11:38:26 +05'30'

(Vishesh Kumar Chugh)

Company Secretary & Compliance Officer

32

FINANCIAL EXPRESS

ail.com 2023

t (Rs. In Lacs) orresponding 3 months ended in the revious year

31-Mar-22 8.66 4.69 4.69 1.95

> 1.95 150.00 466.27

0.13 0.13 eeting held on

change under format of the website of the

vices Limited Sd/-**Udit Agarwal** Time Director IN: 00239114

nauraha, 63139 **CT 2002**

ncial Assets) Rules, 2002 ntor (s) that

ssession of be sold on any kind of es/Reserve

dham Singh

hok Kumar) Narang S/o hok Kumar, isa Twenty

Place: Hisar

Date : 30th May 2023

) Khasra no

ingh Nagar South- 3.03 ur, Distt US nited auto

chand

dum Road, R/o Village

ty only) as

179.74 Sq. eeka ram , nt. Kusum

ited auto

The above is an extract of detailed format of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2023, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and Company's Website at www.stancap.co.in

The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective Meeting(s) held on May 29, 2023

By the Order of the Board For Standard Capital Markets Limited

Place: New Delhi Date: 29.05.2023

Ram Gopal Jindal (Managing Director) DIN-06583160

HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED

Registered Office & Works: Near Industrial Development Colony, Hisar-125005 (HRY) Phone: 01662-220067, 220367, 220738 Fax 01662-220265 Emall: info@hisarmetal.com, vchugh@hisarmetal.com Web www.hisarmetal.com CIN: L74899HR1990PLC030937

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Transfer of Equity Shares of the Company to the Demat Account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

In terms of provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016; as amended from time to time ("the Rules"), the Company is required to transfer all shares, in respect of which dividend has not been paid or claimed for period of seven consecutive years, to the Demat account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority in the manner as prescribed under the Rules.

In compliance with the said Rules, the Company is communicating individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to the Demat account of IEPF Authority. The Company is also uploading on its website www.hisarmetal.com, the details of such shareholders whose shares are liable to be transferred to the Demat Account of IEPF Authority. The Shareholders may please note that the Company shall transfer the concerned shares held by them in physical or demat form to the Demat account of IEPF Authority within a period of 30 days from 1st September 2023 being the due date as prescribed under the said Rules.

The shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer to the Demat account of IEPF Authority and upon such issue of duplicate share certificate(s), the original share certificate(s) which stands registered in their name will stand automatically cancelled and non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of duplicate share certificate(s) issued by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority as prescribed under the said Rules. Further the shareholders holding shares in Demat form and whose shares are liable to be transferred, may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action where the concerned shareholders have their accounts for transfer of such shares to the Demat account of IEPF Authority.

The concerned Shareholders are hereby requested to claim the dividend declared during the Financial Year 2015-16 and onwards and which remains unclaimed or unpaid by making an application to our RTA or Company, failing which their Shares shall be transferred to the IEPF.

The Shareholders may please note that both, the unclaimed dividend amount transferred to IEPF and The Shareholders may please note that both, the unclaimed dividend amount transferred to IEPF and the shares transferred to the Demat account of IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from the IEPF Authority after following procedure prescribed under the said Rules. For any information/clarification on this matter, please write to or contact the Company at vchugh@hisarmetal.com or our RTA SKYLINE FINANCIAL SERVICES PVT LTD at D-153/A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi - 110020, Phone: 011-64732681-88, Email: admin@skylinerta.com

For Hisar Metal Industries Limited

(Vishesh Kumar Chugh) Company Secretary & Compliance Officer



BEF

Date

Plac

Stat P

R

N E 2 N

4 (a 5 To (C

Ec Re pe Ea COI

1.1 2.1 1. The a record b 2. The a Account Act"). as ("SEBI") the Com 3. Figure conform

Place: J Results F

No

Net F Exce Net P Extra Note Excer

Total

Profit Comp Equity Reser the Au

Earnin and di Diluted Note:

1. The abo year end (Listing financial 2. The above

at the me

Place : Delhi Date: 29th Ma

SKYLINE INDIA LIMITED

Regd. Office: 1E/4, Jhandewalan Extn. New Delhi -110055 CIN: U51909DL1996PLC075875 Email: skylineindia96@gmail.com, Phone +91-11-23541110, Website: www.skylineindia.co.in

Statement of Audited Financial Results for the Quarter and year ended March 31, 2023

(Amount As. in tacs							
	Quarter Ended		Year Ended				
Particular	31.03.2023 Audited	31.03.2022 Audited	31.03.2023 Audited	1.03.2022 Audited			
Total income from operations (net)	22.13	6.23	38.44	33.58			
Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	(17.94)	(19.67)	(58.67)	(39.63)			
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(17.94)	(19.67)	(58.67)	(39.63)			
Paid-up Equity Share Capital	425.91	425.91	425.91	425.91			
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each): Basic & Diluted (in Rupees)	(0.42)	(0.46)	(1.38)	(0.93)			
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each): Basic & Diluted [in Rupees]	(0.42)	(0.46)	(1.38)	(0.93)			

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange websites; www.msei.in The aforesaid financial result have been approved by the Board of Directors in its Board

meeting held on 29.05.2023 For SKYLINE INDIA LIMITED

Place: New Delhi Rajesh Kumar Sanghi Date: 29.05.2023 Managing Director

IndusInd Bank () कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) (परिशिष्ट-४) (नियम ८(१) देखें)

गली नंबर 17, निकट ईएसआईसी कार्यालय, एमआईडीसी, अंधेरी (ई), मुंबई-400093

एन्क्लेव, कोहट सीएचबीएस लिमिटेड सोसायटी, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 में स्थित है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पूनर्गंडन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) (इसमें आगे "सरफासी ऐक्ट" कहा गया है) के अधीन तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु मांग सचना दिनांकित 15-03-2022 जारी की थी, जिसमें - 1) मैसर्स प्रभ एंटरप्राइजेज - द्वारा इसके स्वामी – श्री गुरचरण अरोड़ा गुलाब स्वीट्स ऐंड रेस्टोरैंट, 137, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248001 अन्य पता : मकान नंबर 352 / 9, त्यागी रोड, चंदर नगर, देहरादून–248001. अन्य पता : खसरा नंबर 596 एम, फ्लैट नंबर 2, मौजा तरला, नांगल, सहस्त्र धारा रोड, परगना परवा दून, देहरादून उत्तराखंड—248001. 2) श्री गुरचरण अरोडा :— मकान नंबर 352/9, त्यागी रोड, चंदर नगर देहरादून—248001. ३) सुश्री रेण् अरोड़ा :— मकान नंबर ३५२ / ९, त्यागी रोड, चंदर नगर, देहरादून—248001 4) श्री राजा अरोड़ा :– मकान नंबर 352 / 9, त्यागी रोड, चंदर नगर, देहरादून–248001 से उक्त सूचन में वर्णित अनुसार बकाया राशि रू. 2,38,65,678.53 / — तथा 18—01—2022 से आगे ब्याज का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतदद्वारा कर्जदारों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को

सूचना दी जातों है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा 24—05—2023 को प्राप्त कर लिया है। उपरिवर्णित कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि इस

सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार नहीं करें तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडसइंड बैंक लिमिटेड की बकाया राशि रू. 2,38,65,678.53/— तथा 18—01—2022 से आगे ब्याज का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा

13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति परिसर भूमि खसरा नंबर 884 मिन, मकान नंबर 352/9, क्षेत्रफल

195.10 वर्ग मीटर, स्थित मौजा देहराखास, परगना सेंट्रल दून, जिला देहरादून—248001, जो निम्नानुसार परिबद्ध है :— उत्तर : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण : रोड, पूरब : लखानी की सम्पत्ति, पश्चिम : अशोक कुमार की सम्पत्ति

तिथि : 24-053-2023

स्थान : देहरादुन

माग सूचना

एडलवेइस असेट रिकस्टक्शन कम्पनी लिमिटेड सीआईएन: यु67100एमएच2007पीएलसी174759 पंजी. कार्यालय : एडलवेइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलीना, मुंबई-400098

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के अधीन

अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभतिकरण और प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम

2002 के तहत एडलवाइस असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड ("ईएआरसी") का प्राधिकृत अधिकारी है। अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पिटत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की थी, जिसमें निम्नलिखित कर्जदारी से उनको जारी संबंधित मांग सूचना में वर्णित राशियां, जो नीचे भी दी गई हैं, चुकाने की मांग की गई थी। उपरोक्त के संबंध में, एतदुद्वारा एक बार पुनः, कर्जदारों से ईएआरसी को, यहां नीचे निदर्शित राशियों का भुगतान उक्त मांग सूचना में वर्णितानुसार आगे ब्याज नीचे वर्णित तिथि से भूगतान तथा / अथवा वसूली की तिथि तक, उक्त कर्जदारों द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध के साथ पठित अन्य दस्तावेजों / विलेखों, यदि कोई, के तहत देय, इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है। ऋण की सम्यक वापसी के लिए उक्त संबंधित कर्जदार (रों) द्वारा निम्नलिखित आस्ति ईएआरसी के पास बंधक रखी गई है।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ट्रस्ट एवं समनुदेशक का विवरण	कर्जदार(रों)/ सह-कर्जदार(रों) का नाम	म्रांग सूचना की तिथि एवं राशि
1	NHXBA0 0000888 035	ईएआरसी ट्रस्ट एससी–448 आईसीआईसीआ ई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड	2. श्रीमती मंजू सिंह (सह–कर्जदार)	रू. 23,59,101.71 (रूपए तेईस लाख उनसठ हजार एक सौ एक तथा पैसे इकहत्तर मात्र) 04–05–2023 तक एवं 08–05–2023

प्रतिभृत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति खेवट नंबर 1290 मिन खतौनी नंबर 2039 मिन खसरा नंबर 2764, 2767, 2768 में रिथत प्लॉट पर मकान, मौजा बहादुरगढ़, सूरत नगर, लाइन पार, बहादुरगढ़, हरियाणा, परिमाप 100 वर्ग गज तथा चौहददी निम्नानुसार है : पूरब : राज सिंह का प्लॉट, पश्चिम : रास्ता **उत्तर**ः जयराम का प्लॉट, **दक्षिण**ः आनंद का मकान।

यदि उक्त कर्जदार ईएआरसी को उपरोक्तानुसार भुगतान करने में असफल रहेंगे, तो ईएआरसी उपरोक्त प्रतिभृत आस्ति के विरुद्ध अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत कार्यवाही आरंभ करेगी जो पर्णतया उक्त कर्जदारों की जोखिम, लागत और परिणामों पर होगी। अधिनियम के तहत कर्जदार उपरोक्त आस्तियों का अंतरण, बिक्री, पटटा अथवा अन्य प्रकार से ईएआरसी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम अथवा तदधीन विरचित नियमों के प्रावधानी का उल्लंघन करता है, अधिनियम के तहत दी गई व्यवस्था के अनुसार कारावास तथा / अथवा आर्थिक दंड का भागी होगा।

स्थानः बहादुदगढ तिथि : 30-05-2023

सेवा में,

(1) जय अम्बे एजेन्सीज

प्राधिकृत अधिकारी वास्ते एडलवेइस असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड



ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) प्रथम तल एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़ (तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्पेस आबंटित)

वाद सं. : ओ.ए./2015/2021

ऋण वसली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप—नियम (2क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत सम्मन

> ईएक्सएच. नंबर : 16959 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

जय अम्बे एजेन्सीज द्वारा इसके स्वामी श्री नरेश कमार गोयल निवासी मकान नंबर 220. महावीर कालोनी, बल्लभगढ जिला फरीदाबाद, हरियाणा, फरीदाबाद, हरियाणा, (2) प्रतिवादी सं. 2 – श्री नरेश कुमार गोयल पुत्र श्री पूरन लाल गोयल

निवासी मकान नंबर 220, महावीर कालोनी, बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद, हरियाणा (कर्जदार) (3) प्रतिवादी सं. 3 — श्रीमती रीता गोयल पत्नी श्री नरेश कुमार गोयल

निवासी मकान नंबर 220, महावीर कालोनी, बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद, हरियाणा (4) प्रतिवादी सं. 4 – श्री राम रतन गोयल

निवासी मकान नंबर 206, जैन कालोनी, बल्लभगढ जिला फरीदाबाद, हरियाणा

जबिक, ओए / 2015 / 2021 माननीय पीठ अधिकारी / रिजस्ट्रार के समक्ष 10-02-2023 को पेश

किया गया था। जबिक, यह माननीय न्यायाधिकरण रू. 68,62,635.22/— की ऋण वसूली के लिए आपके विरूद्ध

दाखिल किए गए (ओए) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन / नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है (दस्तावेजों इत्यादि की प्रतियों सहित आवे. दन संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के तहत आप प्रतिवादी(यों) को निम्न निर्देश भी दिया जाता है :-

i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं

ii) मूल आवेदन के क्रमांक उक के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के

अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें ; iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के

दौरान, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक उक के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है ; iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभूति हित सृजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक उक के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खलासा की गई सम्पत्तियों

तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण

कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे; v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभृति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेत

जिम्मेदार होंगे। आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा **दिनांक**

05-09-2023 को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 28-03-2023 को दिया गया। सम्मन जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

<u>'IMPORTANT</u>

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in

any manner whatsoever.



Ghar Ki Baat रोज. कार्यालयः ९वा तल अतरिक्ष भवन, २२, के.जी. माग,

दुरभाषः 011&23445200, वेबसाइटः www.pnbhausing.com, सीआईएनः L65922DL1988PLC033856 शाखा कार्यालय को बद करने के लिए नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यूनिट नं. रेस्टरान्ट-जीआरए, शिप्रा कृष्णा अजूर,

भतल, कौशाम्बी, गाजियाबाद- 201012, उत्तर प्रदेश में स्थित पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शाखा कार्यालय को परिचालन दक्षता प्राप्त करने के लिए 31 अगस्त 2023 से परिचालन बंद होना है।

उपरोक्त शाखा के जमा धारकों या ऋण ग्राहकों सहित ग्राहक को निम्न स्थान पर स्थित निकटतम शाखा अर्थात वसंधरा, गाजियाबाद के माध्यम से सभी शाखाओं में सेवा प्रदान की जाएगी:

> पाएनबा हाउसिंग फाइनस लिभटेड यूजी तल एसजी बीटा टावर, प्लॉट नं. 10 सेक्टर- 3 वसुंधरा, गाजियाबाद (यू.पी.)- 201011

नभी शाखाओं का विवरण हमारी वेबसाइट www.pnbhousing.com पर देखा जा सकता है। 1 भी अन्य सहायता के लिए : टोल फ्री नंबर 18001208800 ,ईमेल: customercare@pnbhousing.com पर संपर्क करें।

हस्ता/-, प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

FRUITION VENTURE LIMITED

Regd. Office: 1301, Padma Tower-1 Rajendra Place, New Delhi-110008 New Delhi 110008 Phone: 011-25710171 , Fax: 011-45084858

Website: www.fruitionventure.com, E-mail:cs@fruitionventure.com, CIN: L74899DL1994PLC058824 EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR

THE QUARTER & YEAR ENDED MARCH 31, 2023

Sr. No.	Particulars	Standalone											
		Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter ended 31.12.2022 (Un-Audited)	Quarter ended 31.03.2022 (Audited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)							
							1	Total Income from operations	5.09	1.26	52.64	442.91	89.39
							2	Net Profit/(Loss) for the period before tax	(6.84)	(4.68)	24.12	(15.15)	100.67
3	Net Profit/(Loss) for the period after tax	5.69	(4.49)	23.79	8.32	77.67							
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(2.45)	(5.15)	7.17	(4.62)	64.39							
5	Equity paid up share capital	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00							
6	Other Equity as at balance sheet date 31.03.2023	233.51	227.16	225.19	233.51	225.19							
7	Earnings per share(Quarterly not annualised):												
	Basic (₹)	0.14	(0.11)	0.59	0.21	1.94							
	Diluted (₹)	0.14	(0.11)	0.59	0.21	1.94							

Note:

प्राधिकृत अधिकारी

इंडसइंड बैंक लिमिटेड

- The above is an extract of the detailed audited standalone results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 29th May, 2023. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on these standalone financial results. The full format of the audited Financial Results for the Quarter and year ended March 31st, 2023 are available on the stock Exchnage website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.fruitionventure.com)
- The above is an extract of the detailed format of Standalone Financial Results for the Year and guarter ended March 31,2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.bseindia.com and on the company website www.img-corp.in.

For and on behalf of Board of Directors of Fruition Venture Limited

Place: New Delhi

Date: 30th May 2023

Nitin Aggarwal Managing Director



जेट्टिंग मशीन (महिन्द्रा बोलेरो 1500 लीटर क्षमता) का हायरिंग।

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालयः अतिरिक्त मुख्य अभियंता (एम)-1

कार्यपालक अभियंता (एम)-62/टी-2, ई-ब्लॉक पार्क, प्रीत विहार, दिल्ली-110092 फोन नं. 22502206, मेल आईडी: djbeeeastii@gmail.com

कार्यपालक अभियंता

(एम)-62 (टी-2)

प्रैस एनआईटी सं. 02/(2023-24) से निविदा जारी की तिथि राशि प्रॉसेसिंग माध्यम से निविदा प्राप्ति एवं निविदा आईडी की अंतिम तिथि समय 023 DJB 241836-ईई(एम)-59 के अंतर्गत वार्ड नं. 18ई (आनंद विहार) के लिये संकीर्ण गलि 12 जून, 2023 26 मई, 2023 में ब्लॉकेज के निपटारे तथा सीवर लाइन की क्लीनिंग के लिये सक्शन कर 02.00 बजे अप. 06.00 बजे अप.

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखी जा सकती है पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी

विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 47 (2023-24) "कोरोना रोकें; मास्क पहनें; शारीरिक दूरी का पालन करें; हाथों को स्वच्छ रखें"

हिसार मेटल इंड्स्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकत कार्यालय एवं कार्यः नियर इंडस्टियल डेवलपमेंट कॉलोनी, हिसार-125005 (हरियाणा) फोन: 01662-220067, 220367, 220738, फैक्स: 01662-220265

ई-मेलः info@hisarmetal.com, vchugh@hisarmetal.com, वेवः www.hisarmetal.com सीआईएन: L74899HR1990PLC030937

शेयरधारकों के लिए सचना निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के डिमेट खाते में कंपनी के इविवटी शेवरों का अंतरण

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016; समय-समय पर यथासंशोधित ("नियम") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की घारा 124(6) के प्रावधानों के संदर्भ में, कंपनी को नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) प्राधिकरण के डिमेट खाते में उन सभी शेयरों का अंतरण करना अनिवार्य है जिन पर निरतर सात वर्षों की अवधि से लाभांश का भूगतान नहीं लिया गया है या भूगतान का दावा नहीं किया गया है।

कथित नियमों के अनुपालन में, कंपनी उन संबंधित शेयरधारकों से व्यक्तिगत रूप से पत्राचार कर रही है जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं। कंपनी के अपनी वेबसाइट www.hisarmetal.com पर ऐसे सभी शेयरधारकों के विवरण अपलोड किये जा रहे हैं जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं। शेयरधारक कृपया नोट करें कि कंपनी नियमों के निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर नियत तिथि अर्थात 01 सितम्बर, 2023 से 30 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित शेयरों चाहे वह भौतिक प्रारूप में हो या डिमेट प्रारूप में, आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित कर देगी।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक जिनके शेयर अंतरित किये जाने हैं, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरण के प्रयोजन हेत् उनके द्वारा घारित मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के स्थान पर बुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) को जारी करेगी और बुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) जारी होने के बाद मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) जो उनके नाम पंजीकृत हैं, स्वतः ही निरस्त एवं गैर-विनिमेय हो जाएंगे। शेयरधारक कृपया नोट करें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किये गए विवरणों को ध्यान में रखा जाए और नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतू बुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाए। डिमेट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक जिनके शेयर अंतरित किये जाने हैं, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में ऐसे शेयरों के अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्य के माध्यम से उन डिपॉजिटरी को सचित करेगी जहां संबंधित शेयरधारकों का अपना खाता है।

संबंधित शेयरधारकों से एतदद्वारा हमारे आरटीए या कंपनी के पास आवेदन करके वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान घोषित लामांश और उसके बाद और जो अदावाकृत व अप्रदत्त रहता है का दावा करने के लिए अनुरोध किया जाता है और ऐसा नहीं करने पर उनके शेयर आईईपीएफ को अंतरित कर दिये जाएंगे।

शेयरघारकों कृपया नोट करें कि आईईपीएफ को अंतरित की गई अदावाकृत लाभांश राशि और आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित किये गए शेयरों और ऐसे शेयरों पर उपार्जित सभी लाम, यदि कोई हो, को वापिस पाने के लिए नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर आईईपीएफ प्राधिकरण के पास अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इस विषय पर किसी भी जानकारी / स्पष्टीकरण के लिए कृपया कंपनी को vchugh@hisarmetal.com पर लिखे अथवा आरटीए स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि., डी-153 / ए. प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नर्ड दिल्ली-110020, फोनः 011-64732681-88, ई-मेलः admin@skylinerta.com से सम्पर्क करें।

कृते हिसार मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

स्थान : हिसार दिनांकः 30 मई 2023

(विशेष कुमार चुघ) कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES, NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA

PUBLIC ANNOUNCEMENT



to view addendum

EBIXCASH **EBIXCASH LIMITED**

Our Company was originally incorporated as 'Ebix Software India Private Limited' in Delhi as a private limited company under the Companies Act, 1956 pursuant to a certificate of incorporation dated April 26, 2002 issued by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana. Further, pursuant to an order dated July 30, 2015 passed by the Regional Director (North Region), Ministry of Corporate Affairs ("Regional Director"), the Registered Office of our Company was changed from Delhi to Uttar Pradesh and a new corporate identity number was assigned to our Company by the Registrar of Companies, Uttar Pradesh at Kanpur on August 28, 2015. Thereafter, the name of our Company was subsequently changed to "EbixCash Private Limited" by a special resolution passed by our Shareholders on October 07, 2019 pursuant to which a fresh certificate of incorporation was granted by the Regional Director, our Registered Office was changed from Noida, Uttar Pradesh to New Delhi and a new corporate identity number was assigned to our Company issued by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana at Delhi (the "RoC") on January 05, 2022. Thereafter, our Company was converted into a public limited company pursuant to a special resolution passed in the extraordinary general meeting of our shareholders held on January 08, 2022, and consequently, the name of our Company was changed to 'EbixCash Limited', pursuant to a fresh certificate of incorporation dated February 02, 2022, by the RoC. For details of changes in the name and registered office address of our Company, see 'History and Certain Corporate Matters' on page 221 of the Draft Red Herring Prospectus. Registered Office: 101, First Floor, 4832/24, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi - 110 002, Delhi, India | Corporate Office: Plot No. 122 & 123, NSEZ, Phase - II, Noida - 201 305, Uttar Pradesh, India

> Contact Person: Purnima Nijhawan, Company Secretary and Compliance Officer Tel: +91-120-4688400; Fax: +91-120-2460870; E-mail: investors@ebixcash.com; Website: www.ebixcash.com | Corporate Identity Number: U72900DL2002PLC392081

ADDENDUM TO THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS DATED MARCH 9, 2022 (THE "DRAFT RED HERRING PROSPECTUS" OR THE "DRHP"): NOTICE TO INVESTORS (THE "ADDENDUM")

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH ("EQUITY SHARES") OF EBIXCASH LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE INCLUDING A PREMIUN OF₹[♦] PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹60,000 MILLION (THE "ISSUE INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [♦] EQUITY SHARES, AGGREGATING UP TO ₹ [♦] MILLION (CONSTITUTING UP TO [♦]% OF THE POST-ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL), FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES ("EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS, MAY OFFER A DISCOUNT OF UP TO [◆]% (EQUIVALENT OF ₹ [◆] PER EQUITY SHARE) TO THE ISSUE PRICE TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING UNDER THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION ("EMPLOYEE DISCOUNT"). THE ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE [●]% AND [●]% OF OUR POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

OUR COMPANY MAY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, CONSIDER A PRE-IPO PLACEMENT OF UP TO [●] SPECIFIED SECURITIES FOR CASH CONSIDERATION AGGREGATING UP TO ₹ 12,000 MILLION (THE "PRE-IPO PLACEMENT"). THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND THE PRE-IPO PLACEMENT, IF ANY, WILL BE UNDERTAKEN PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS UNDERTAKEN, THE NUMBER OF EQUITY SHARES ISSUED TO THE EXTENT OF SUCH PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO THE ISSUE COMPLYING WITH RULE 19(2)(B) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED ("SCRR").

Potential Bidders may note the following:

a. The DRHP contains financial information for financial years ended March 31, 2019, March 31, 2020, March 31, 2021 and September 30, 2021 and September 30, 2022. Due to lapse of time, and on account of availability of updated financial information, the section titled "Restated Consolidated Financial Information" beginning on page 278 of the DRHP has been updated to provide restated consolidated financial information of our Company, as at and for the financial years ended March 31, 2021 March 31, 2022, and March 31, 2023 which are derived from the audited consolidated financial statements for the financial years ended March 31, 2021, March 31, 2023 and prepared in accordance with Ind AS, Section 26 of the Companies Act, 2013 ("Companies Act"), the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the "SEBI ICDR Regulations") and the Guidance Note on Reports in Company Prospectuses (Revised 2019) issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"), as amended from time to time, along with the auditor's examination report thereon. All details in the sections titled, "Restated Consolidated Financial Information" from the Addendum will be disclosed appropriately in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the RoC, the SEBI and the Stock Exchanges.

The above changes are to be read in conjunction with the DRHP and accordingly their references in the DRHP stand amended pursuant to the Addendum supplements the DRHP and updates the information in the DRHP and accordingly their references in the DRHP and accordingly their references in the DRHP and updates the information in the inform Please note that the information included in the DRHP, including to the extent stated in the Red Herring Prospectus, as and when filed with the RoC, the SEBI and the Stock Exchanges. Investors should read the Red Herring Prospectus as and when filed with the RoC, the SEBI and the Stock Exchanges before making an investment decision in the Issue. All capitalised terms used in the Addendum shall, unless specifically defined or unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the DRHP. The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (i) to persons in the United States that are reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A") and referred to in the Draft Red Herring Prospectus as "U.S. QIBs") pursuant to Section 4(a) of the U.S. Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.

Potential Bidders may note that in order to assist the Bidders to get a complete understanding of the updated information, the updated information has been included in the Addendum. Please note that the Addendum does not reflect all the changes that have occurred between the date of filing of the DRHP and the date hereof, and accordingly does not include all the changes and/or updates that will be included in the Red Herring Prospectus and the Prospectus.

MOTILAL OSWAL INVESTMENT BANKING

MOTILAL OSWAL INVESTMENT ADVISORS LIMITED Motilal Oswal Tower Rahimtullah Sayani Road Opposite Parel ST Depot Prabhadevi, Mumbai - 400 025 Maharashtra, India

Tel: +91 22 7193 4380 E-mail: ebixcash.ipo@motilaloswal.com Investor Grievance E-mail: moiaplredressal@motilaloswalgroup.com Website: www.motilaloswalgroup.com Contact person: Subodh Mallya SEBI Registration No.: INM000011005

Place: New Delhi

Date: May 29, 2023

equirus

EQUIRUS CAPITAL PRIVATE LIMITED 12th Floor, C Wing, Marathon Futurex N M Joshi Marg, Lower Parel Mumbai - 400 013 Maharashtra, India Tel: +91 22 4332 0700 E-mail: ebix.ipo@equirus.com Investor Grievance E-mail: investorsgrievance@equirus.com Website: www.equirus.com Contact Person: Ankesh Jain

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS 1 ICICI Securities

ICICI SECURITIES LIMITED ICICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025 Maharashtra, India Tel.: +91 22 6807 7100 E-mail: ebixcash.ipo@icicisecurities.com Investor Grievance E-mail: customercare@icicisecurities.com Website: www.icicisecurities.com

Contact Person: Sameer Purchit/ Kristina Dias SEBI Registration: INM000011179

REGISTRAR TO THE ISSUE

O SBICAPS

202, Maker Tower 'E' Cuffe Parade Mumbai 400 005, Maharashtra, India Tel.: +91 22 2217 8300 E-mail: ebixcash.ipo@sbicaps.com Investor Grievance e-mail: investor.relations@sbicaps.com Contact person: Vaibhav Shah Website: www.sbicaps.com

SEBI Registration Number:

INM000003531

SBI CAPITAL MARKETS LIMITED

YES//SECURITIES

YES SECURITIES (INDIA) LIMITED 2nd Floor, YES Bank House Off Western Express Highway Santacruz East, Mumbai 400 055 Maharashtra, India. Tel: +91 22 5091 9650 E-mail: ebixcash.ipo@ysil.in Investor Grievance E-mail: igc@ysil.in Website: www.yesinvest.in Contact Person: Sachin Kapoor/ Abhishek Gaur

SEBI Registration Number: INM000012227

SEBI Registration Number: INM000011286 LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED **LINK**Intime

C-101, 1st floor, 247 Park, L. B. S. Marg, Vikhroli West, Mumbai - 400 083 Maharashtra, India Tel: +91 22 4918 6200; E-mail: ebixcash.ipo@linkintime.co.in; Investor Grievance E-mail: ebixcash.ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in; Contact person: Shanti Gopalkrishnan; SEBI Registration No.: INR000004058

On behalf of EbixCash Limited

Purnima Nijhawan

Company Secretary and Compliance Officer EbixCash Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP and Addendum with the

Securities and Exchange Board of India on March 09, 2022 and May 29, 2023, respectively. The DRHP is available on the website of the SEBI at www.bseindia.com and NSE at www.bseindia.com as well as on the websites of the BRLMs i.e. Motilal Oswal Investment Advisors Limited, Equirus Capital Private Limited, ICICI Securities Limited and YES Securities (India) Limited at www.motilaloswalgroup.com, www.equirus.com,

www.icicisecurities.com, www.sbicaps.com and www.yesinvest.in, respectively. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see "Risk Factors" beginning on page 29 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision. The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (i) within the United States only to persons

reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the Securities Act, "Rule 144A") pursuant to Section 4(a) of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

www.readwhere.com

Chandigarh